

## (Semester System)

एम.ए.-एप्लाईड फिलॉसफी एण्ड योग (अनुप्रयुक्त दर्शन एवं योग)  
संशोधित पाठ्यक्रम जुलाई 2018 से प्रभावी

### प्रथम सेमेस्टर

पूर्णांक : 80

#### प्रथम प्रश्न पत्र : योग के आधारभूत—तत्त्व

इकाई 1— अनुप्रयुक्त दर्शन—अर्थ, स्वरूप एवं महत्व, दर्शन एवं अनुप्रयुक्त दर्शन में संबंध।  
योग का अर्थ, परिभाषा, महत्व व उद्देश्य, योग का उद्भव एवं विकास, योग में साधक एवं  
बाधक तत्त्व, योग कौशल विकास — अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं उद्देश्य। योग कौशल  
विकास के विभिन्न आयाम।

इकाई 2— वेद एवं उपनिषद, गीता एवं योग वाशिष्ठ, बौद्ध दर्शन तथा जैन दर्शन, सांख्य  
एवं वेदान्त दर्शन।

इकाई 3— अष्टांग योग एवं कर्म योग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग  
एवं क्रिया योग।

इकाई 4— महर्षि पतंजलि, गुरु गोरक्षनाथ, शंकराचार्य।

इकाई 5— स्वामी विवेकानन्द, श्री अरबिन्द, योगी श्यामाचरण लाहड़ी, स्वामी कुवल्यानन्द एवं  
स्वामी शिवानन्द

#### सहायक पुस्तकों—

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. भारतीय दर्शन             | नंदकिशोर देवराज (संपादक) |
| 2 भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण | संगम लाल पाण्डेय         |
| 3. हठयोग प्रदीपिका          | कैवल्यधाम लोणावाला       |
| 4. आसन मीमांसा              | स्वामी कुवल्यानन्द       |
| 5. प्राणायाम मीमांसा        | स्वामी कुवल्यानन्द       |
| 6. गोरक्ष संहिता            | गुरु गोरक्षनाथ           |

14/06/19

## द्वितीय प्रश्न पत्र : योग की दार्शनिक पृष्ठभूमि

पूर्णांक : 80

इकाई 1—भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएँ, भारतीय दर्शन में योग का महत्व।

इकाई 2—योग की दार्शनिक पृष्ठभूमि, सांख्य —दर्शन, सांख्य और योग में संबंध, पुरुष सिद्धि, बंधन।


इकाई 3—सांख्य प्रकृति सिद्धि, स्वरूप, विकासवाद एवं कौवल्य।

इकाई 4—योग सूत्र, अस्तांग योग परिचय।

इकाई 5—गीता में योग के विविध रूप, भक्ति, ज्ञान एवं कर्म।

सहायक पुस्तकें—

1. योगदर्शन	सम्पूर्णानंद
2. पांतजल योग—विमर्श	विजयपाल शास्त्री
3. भारतीय दर्शन की रूपरेखा	एम हिरियन्ना
4. सांख्यतत्त्व कौमुदी	वाचस्पति मिश्र
5. सरल योगासन	डॉ. ईश्वर भारद्वाज

## तृतीय प्रश्न पत्र : हठयोग सिद्धांत एवं साधना

पूर्णांक : 80

इकाई 1—हठयोग की परिभाषा अभ्यास हेतु उचित स्थान, ऋतुकाल।

साधना में साधक व बाधक तत्व। हठ सिद्धि के लक्षण।

हठयोग की उपादेयता योगाभ्यास के लिए पथ्यापथ्य निर्देश।

इकाई 2—हठ योग प्रदीपिका में वर्णित आसनों की विधि व लाभ।

प्राणायाम की परिभाषा, प्रकार, विधि, प्राणायाम की उपयोगिता।

षट्कर्म वर्णन, धौति, वस्ति, नेति, नौलि त्राटक, कपाल-भाति की विधि व लाभ।

इकाई 3—कुंडलिनी का स्वरूप, चक्रों के स्वरूप, जागरण के उपाय।

बंध-मुद्रा वर्णन, महामुद्रा, महाबंध, महावेद्य, खेचरी, उडडीयान बंध, जालंधर, मूलबंध

विपरीतकरणी, बज्रोली, शक्तिचालिनी समाधि का वर्णन नादानुसंधान।

इकाई 4—घेरण्ड संहिता में वर्णित षट्कर्म-धौति, वस्ति, नेति, नौलि, त्राटक, कपालभाति की विधि सावधानियां व लाभ।

इकाई 5—घेरण्ड संहिता के आसन, प्राणायाम, मुद्राएँ, प्रत्याहार, ध्यान व समाधि का विवेचन।

घेरण्ड संहिता में वर्णित विविध आसनों एवं प्राणायामों की विधि, लाभ एवं सावधानियां।

सहायक पुस्तकों—

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. हठयोग प्रदीपिका        | प्रकाशक कैवल्यधाम लोणावाला |
| 2. घेरण्ड संहिता          | प्रकाशक कैवल्यधाम लोणावाला |
| 3. योगांक—कल्याण विशेषांक | गीता प्रेस, गोरखपुर        |
| 4. हठयोग                  | स्वामी शिवानंद             |
| 5. योग विज्ञान            | स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती |

## चतुर्थ प्रश्नपत्र : कियात्मक

पूर्णांक : 100

पवनमुक्तासन भाग—एक

भाग — दो

भाग — तीन

सूर्यनमस्कार।

## द्वितीय सेमेस्टर

प्रथम प्रश्न पत्र : चेतना का अध्ययन

पूर्णांक : 80

इकाई 1—चेतना का अर्थ, परिभाषा स्वरूप, अध्ययन की आवश्यकता

इकाई 2—उपनिषद, बौद्ध, जैन मतानुसार चेतना


इकाई 3—चेतना का स्वरूप, सांख्य—योग एवं मीमांसा एवं अद्वैत वेदांत मत में, आत्मा, ब्रह्म, पुरुष, सिद्धि, पुरुष बहुत्व

इकाई 4—चेतना का स्वरूप, हुसर्ल, सार्त्र, श्री अरविंद, मानव का स्वरूप राधाकृष्णन, रवीन्द्रनाथ टैगोर

इकाई 5—मानव चेतना का स्वरूप, मानव चेतना के अध्ययन की आवश्यकता, मानव चेतना का वर्तमान संकट तथा सार्थक समाधान के उपाय, मानव चेतना के विविध रहस्य एवं तथ्य — जन्म और जीवन, भाग्य और पुरुषार्थ, कर्मफल सिद्धांत, संस्कार एवं पुर्नजन्म, भारतीय ऋषियों द्वारा विकसित मानव चेतना के विकास की विधियां ।

सहायक पुस्तकें—

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. समकालीन भारतीय दर्शन             | बी के लाल             |
| 2. समकालीन पाश्चात्य दर्शन          | बी के लाल             |
| 3. समकालीन पाश्चात्यदर्शन           | लक्ष्मी सक्सेना       |
| 4. भारतीय दर्शन में चेतना का स्वरूप | डॉ. श्रीकृष्ण सक्सेना |
| 5. मानव चेतना                       | डॉ. ईश्वर भारद्वाज    |



A photograph showing three handwritten signatures and a date stamp. From left to right: a signature, a date '५/०६/१६' written below a diagonal line, and another signature. To the right of the date is a rectangular stamp containing the word 'PAPER'.

इकाई 1—योग की परिभाषा, चित्त, चित्त भूमियों, चित्त वृत्तियों।

अभ्यास और वैराग्य, समाधि के भेद, ईश्वरत्व, ईश्वर प्राणिधान, चित्त प्रसादन के उपाय, ऋतंभराप्रज्ञा।

इकाई 2—पंचकलेश, दुःख का स्वरूप, चतुर्व्यूहवाद, विवेकख्याति, सप्तधाप्रज्ञा।

इकाई 3—योग के आठ अंग – यम, नियमादि : इनकी सिद्धि के फल वितर्क—विवेचन, प्राणायाम का फल, प्रत्याहार का फल।

इकाई 4—धारणा, ध्यान और समाधि संयमचित्त का परिणाम, विभूति और उसके भेद, कैवल्य का स्वरूप।

इकाई 5—सिद्धि के पांच भेद, निर्माण चित्त कर्म के भेद, दृष्टा और दृश्य धर्ममेध समाधि, आधुनिक जीवन में ध्यान की प्रासंगिकता।

सहायक पुस्तकें—

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. योग सूत्रतत्त्ववैशारदी  | वाचस्पति मिश्र   |
| 2. योग सूत्र योग वर्तिका   | विज्ञानभिक्षु    |
| 3. योग सूत्र राज मार्त्त्व | हरिहरानन्द आरण्य |
| 4. पातंजल योगप्रदीप        | ओमानन्द तीर्थ    |
| 5. पातंजल योग विमर्श       | विजयपाल शास्त्री |
| 6. ध्यान योग प्रकाश        | लक्ष्मणानन्द     |
| 7. योग दर्शन               | राजवीर शास्त्री  |

15/06/19

## तृतीय प्रश्नपत्र : योग एवं स्वास्थ्य

पृष्ठांक : 80

इकाई 1—स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वस्थ पुरुष के लक्षण, दिनचर्या—मुखशोधन, व्यायाम की परिभाषा, योगयायोग्य प्रकार, लाभ, स्नान के लाभ एवं हानि के अनुसार स्नान, संध्योपासना, योगाभ्यास। रात्रिचर्या—निद्रा एवं ब्रह्मचर्य, ऋतुचर्या, ऋतुविभाजन, ऋतु के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप व प्रशमन। सदवृत्त एवं आचार रसायन।

इकाई 2—आहार की परिभाषा, आहार के गुण व कर्म। आहार के घटक द्रव्य : कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिजपदार्थ, जीवनीय तत्व जल। आहार की मात्रा व काल, संतुलित आहार। दुग्धाहार, फलाहार, अपवाहार, मिताहार उपवास। शाकाहार व मांसाहार के अवगुण। अंकुरित आहार के लाभ, योगाभ्यासी के लिए निषिद्ध आहार।


इकाई 3—निम्नलिखित रोगों का लक्षण— कारण व यौगिक उपचार अग्निमांद्य, अजीर्ण, पीलिया, कोष्ठबद्धता, अम्लपित्त, कोलाइटिस, दमा, उच्च व निम्न रक्तचाप, साइटिका, आमवात; अर्थराइटिस, वातरक्त; गठियाबद्ध।

इकाई 4—नाभि टलना, धर्मरोग, कर्णबाधिर्य, नासांकुर वृद्धि, बाल झड़ना, दृष्टिक्षीणता, सर्वाइकल स्पॉडिलाइटिस, धातुदौर्बल्य, मधुमेह, बौनापन, श्वेतप्रदर, कटिशूल।

इकाई 5—आधुनिक जीवन शैली में योग की प्रासंगिकता, सावधानियों एवं निदान (खानपान व्यवस्था, भविष्य के प्रति अनिश्चितता, मानसिक अवसाद, द्रुत जीवन शैली आदि के विशेष संदर्भ में)।


सहायक पुस्तकें—

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. स्वस्थवृत्त विज्ञान | रामहर्ष सिंह |
| 2. यौगिक चिकित्सा      | कुवल्यानंद   |
| 3. योग से आरोग्य       | कालिदास      |



14/06/19

1. प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध किया
2. पवनमुक्तासन भाग—एक  
भाग – दो  
भाग – तीन
3. सूर्यनमस्कार।

### **प्रथम प्रश्न पत्र : श्रीमद्भगवद गीता दर्शन एवं योग साधना के तत्त्व**

इकाई 1—श्रीमद् भगवद गीता का स्वरूप, रचनाकाल, श्रीमद् भगवदगीता का दार्शनिक एवं आध्यात्मिक महत्व। मानवीय चिंतन एवं जीवन पर विश्वव्यापी प्रभाव।

इकाई 2—श्रीमद् भगवदगीता के कुछ प्रमुख भाष्यकारों का जीवन परिचय उनकी योग साधनाएं एवं भाष्य की विशेषताएं, आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, लोकमान्य तिलक तथा गौड़ी के संदर्भ में।

इकाई 3—श्रीमद् भगवदगीता का तत्त्व विचार, माया, प्रकृति, पुरुष, ईश्वर तथा अवतार तत्त्व का स्वरूप, श्रीमद्भगवद गीता का आचार शास्त्र।

इकाई 4—गीता में योग की प्रवृत्ति व स्वरूप। योग के भेद—कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, ध्यान योग का स्वरूप। भक्त, कर्मयोगी व ज्ञानयोगी व ज्ञानी तत्त्व के लक्षण, स्थितप्रज्ञ का तत्त्व दर्शन।

इकाई 5—गीता का निष्काम कर्मयोग, ज्ञान भक्ति एवं कर्म योगों का समन्वय।

सहायक पुस्तके—

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. श्रीमद्भगवदगीता               | रामानुज भाष्य     |
| 2. गीतांक                        | गीताप्रेस गोरखपुर |
| 3. गीतामाता                      | गौड़ी             |
| 4. गीता प्रवचन संत               | विनोवाभावे        |
| 5. श्रीमद्भगवदगीता गीतारहस्यद्वा | लोकमान्य तिलक     |
| 6. श्रीमद्भगवदगीता               | शंकरभाष्य         |

15/06/18

इकाई 1—आसन परिभाषा, उददेश्य, आसनों का वर्गीकरण आसन और व्यायाम में अंतर, बंधों का वैज्ञानिक विवेचन।

इकाई 2—ध्यानात्मक शरीर—सम्वर्धनात्मक एवं विश्रामात्मक आसनों का वैज्ञानिक विवेचन, शुद्धिक्रियाओं, षटकर्मों का वैज्ञानिक विवेचन।

इकाई 3—प्राणायाम की परिभाषाएँ प्राणायाम के गुण विशेष प्राणायाम की प्रक्रिया का वैज्ञानिक विवेचन, श्वसन तंत्रकी कियाविधि, प्राणायाम के संदर्भ में दीर्घश्वसन एवं प्राणायाम में अंतर।

इकाई 4—प्राणशक्ति के पाँच स्वरूप, विभिन्न रोगों के निदान में प्राणायाम की उपयोगिता, आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन के संदर्भ में।

इकाई 5—प्राणायाम में ध्यानात्मक आसनों व बंधोंकी अनिवार्यता का वैज्ञानिक विवेचन।

#### सहायक पुस्तकें—

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. प्राणशक्ति एक दिव्य विभूति | पं. श्री राम शर्मा आचार्य सम्पूर्ण वांडमय |
| 2. योगासन और स्वास्थ्य        | लक्ष्मीनारायण अग्रवाल                     |
| 3. आसन प्राणायाम से आधि       | व्याधि निवारण—ब्रह्मवर्चस                 |
| 4. योग दीपिका                 | बी.के.एस. आयंगर                           |
| 5. योग एवं यौगिक विकित्सा     | रामहर्ष सिंह                              |

Handwritten signatures and a date (14/06/19) written over a curved line.

इकाई 1—स्वास्थ्य — अर्थ, परिभाषा, लक्षण एवं अंगों की विवेचना ।

स्वस्थवृत्त — अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, प्रयोजन, अंग

दिनचर्या — प्रातः कालीन नित्यकर्म, व्यायाम की अवधारणा एवं उपयोगिता

अभ्यंग — अर्थ, परिभाषा एवं विधियां एवं उनके शरीरगत प्रभाव एवं चिकित्सकीय प्रयोग ।

इकाई 2—स्नान — अर्थ एवं परिभाषा, उद्देश्य, स्नान के भेद व समय, संसाधन, निषेधात्मक रिथतियां व लाभ

निद्रा — परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार, कारणीय सिद्धांत व लाभ, अनिद्रा के लक्षण व उपाय ।

इकाई 3—ऋतुचर्या — अर्थ, परिभाषा, विभाजन एवं विशेषताएं । ऋतु के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप

व प्रशमन — सद्वृत्त एवं आचार रसायन, अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार आदि— व्याधि रोकथाम, निवारण एवं दीर्घ आयु के लिए इनकी उपयोगिता ।

इकाई 4—आहार एवं पोषण — अर्थ, परिभाषा, अंग, घटक, गुणवत्ता, मात्रा, समय, बारम्बारता, कार्य एवं उपयोगिता ।


आहार विविधता — दुग्धहार, फलाहार, अपव्याहार । उपवास की अवधारणा एवं स्वास्थ्य संबंधी उपयोगिता । मांसाहार व शाकाहार की तुलनात्मक विवेचना ।

इकाई 5— संतुलित आहार — परिभाषा, घटक एवं वर्गीकरण ।

घटकों का रासायनिक वर्गीकरण — प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल, वर्गीकरण तथा शरीर में कार्य । आहार — चिकित्सा

#### सहायक पुस्तकें—

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. चरक संहिता              | महर्षि चरक      |
| 2. सुश्रुत संहिता          | महर्षि सुश्रुत  |
| 3. आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य | आचार्य बालकृष्ण |

 १५/०६/१९  
Date

 Date

## चतुर्थ प्रश्नपत्र : कियात्मक

पूर्णक : 100

१. षट्कर्म
  - २ प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध किया
  ३. पवनमुक्तासन भाग—एक  
भाग – दो  
भाग – तीन
  ४. सूर्यनमस्कार।

  04/06/18

## चतुर्थ सेमेस्टर

प्रथम प्रश्नपत्र : योग—उपचार

पूर्णांक : 80

इकाई 1—योग चिकित्सा का अर्थ, परिभाषा, प्रयोजन, मूल सिद्धांत, स्वास्थ्य संवर्द्धन, रोकथाम, उपचार एवं दीर्घायु के लिये योग चिकित्सा का महत्व। योग चिकित्सक के गुण, योग चिकित्सा एवं एलोपैथिक चिकित्सा के बीच में अन्तर, योग चिकित्सा की समकालीन पद्धतियां एवं योग चिकित्सा की सीमाएं।

इकाई 2—यौगिक विकृति निदान : 1. स्वर विज्ञान 2. प्राण एवं 3. श्वास का शारीरिक, मानसिक एवं मनोदैहिक दैनिक समस्याओं के साथ संबंध। सप्तचक का तंत्रिका तंत्र एवं अन्तस्मावी ग्रंथियों से संबंध। स्वास्थ्य एवं तन्द्रलस्ती : अर्थ, परिभाषा, लक्षण एवं अंगों की विवेचना (योग एवं डब्ल्यू एचओ के संदर्भ में)

इकाई 3—सामान्य व्याधियों के लिये योग चिकित्सा, अस्थि एवं मांशपेशी तंत्र के रोग — कमर दर्द, सायटिका, सरवाईकल स्पॉण्डलाइटिस, आमवात के कारण, लक्षण, निदान एवं योग चिकित्सा। श्वसन संबंधी रोग : दमा, निमोनिया, नजला के कारण, लक्षण, निदान एवं योग चिकित्सा।

इकाई 4—पाचन तंत्र संबंधी रोग : कब्ज, अजीर्ण, अम्लपित्त, अल्सर, उदरवायु, पीलिया के कारण, लक्षण, निदान एवं योग चिकित्सा। रक्त परिवहन तंत्र संबंधी उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचार, हृदय धमनी अवरोधके कारण, लक्षण, निदान एवं योग चिकित्सा।

इकाई 5—अन्तस्मावी ग्रंथियों संबंधित रोग :— मधुमेह, थायराइड हार्मोन वृद्धि व कमी, मोटापा, डायबिटीज, मानसिक शक्ति हास के कारण, संकेत, लक्षण, निदान एवं योग चिकित्सा। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग — सिर दर्द, अवसाद, चिन्ता, अनिद्रा, माइग्रेन, तनाव, धूम्रपान, मद्यपान के कारण, लक्षण, निदान एवं योग चिकित्सा।

मानसिक रोग स्वास्थ्य : अर्थ, परिभाषा, कारण, लक्षण एवं उनका योग चिकित्सा द्वारा निदान

सहायक पुस्तकों—

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1 चरक संहिता              | महर्षि चरक      |
| 2 सुश्रुत संहिता          | महर्षि सुश्रुत  |
| 3 आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य | आचार्य बालकृष्ण |
| 4 स्वस्थ्यवृत्त विज्ञान   | रामहर्षि सिंह   |

} २५०६१९

इकाई 1—शरीर रचना का सामान्य परिचय चलन तंत्र रक्त वाहिका तंत्र पाचन तंत्र श्वसन तंत्र मूत्र —जनन तंत्र तंत्रिका तंत्र उत्सर्जन तंत्र तथा संतुलित आहार।

इकाई 2—कंकाल तंत्र उर्ध्व शाखा का कंकाल अधःशाखा का कंकाल ।


इकाई 3—परिसंचरण तंत्र हृदय हृदयचक हृदय संरोध के कारण एवं बचाव के उपाय योगिक सावधानियां एवं निदान रक्त की संरचना।

इकाई 4—पाचन तंत्र रक्त वाहिका तंत्र तथा श्वसन तंत्र इनकी कार्य प्रणाली पर योगिक कियाओं का प्रभाव।

इकाई 5—मूत्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तंत्रिका तंत्र— इनकी कार्यप्रणाली पर योगिक।

सहायक पुस्तकें—

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. शरीर और शरीर किया विज्ञान       | मन्जु गुप्त         |
| 2. मानव—शरीर—रचना                  | मुकन्द स्वरूप वर्मा |
| 3. मानव शरीर रचना एवं किया विज्ञान | अनन्त प्रकाश गुप्ता |

  
14/06/19

### तृतीय प्रश्नपत्र :

पूर्णांक : 100

यह प्रश्न पत्र दो भागों में विभक्त होगा

1. परियोजना कार्य 75 अंक
  2. शैक्षिक भ्रमण / सौखिकी 25 अंक
- 

### चतुर्थ प्रश्न पत्र : कियात्मक

पूर्णांक : 100

1. उच्च स्तरीय योगिक कियाएं
2. शोधन कियाएं
3. ध्यान
4. षटकर्म
5. प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध किया
6. पवनमुक्तासन भाग—एक  
भाग — दो  
भाग — तीन
7. सूर्यनमस्कार।

Q ) } 14/06/18

Rohit